



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 181-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, OCTOBER 25, 2018 (KARTIKA 3, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 अक्टूबर, 2018

**संख्या 96/जीएसटी-2.**— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 86/जीएसटी-2, दिनांक 18 सितम्बर, 2018, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 86/जीएसटी-2, दिनांक 18 सितम्बर, 2018, में, —

- (i) मद (ग) में, अन्त में, विद्यमान "।" के स्थान पर, "।:" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- (ii) अन्त में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में, इस अधिसूचना की कोई भी बात, इस अधिसूचना से संलग्न अनुबंध 'क' में विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों और उनके कार्यालयों से भिन्न, रक्षा मंत्रालय के अधीन प्राधिकरणों को प्रथम अक्टूबर, 2018 से लागू नहीं होगी।"

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

## अनुबंध 'क'

## रक्षा लेखाओं के प्रधान नियंत्रकों/नियंत्रकों को आबंटित कोड संख्या

क्रम संख्या	नियंत्रक का पदनाम/कार्यालय	कोड संख्या
1	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	00
2	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	01
3	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (आफिसर्स) पुणे	02
4	रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना) मेरठ	03
5	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिणी कमान) पुणे	04
6	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, बेंगलुरु	05
7	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पश्चिमी कमान) चंडीगढ़	06
8	प्रधान लेखा नियंत्रक (फेक्ट्री) कोलकता	07
9	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (वायु सेना) देहरादुन	08
10	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नेवी) मुम्बई	09
11	रक्षा लेखा नियंत्रक (निधि) मेरठ	10
12	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (उत्तरी कमान) जम्मू	12
13	जोनल कार्यालय (पेंशन संवितरण) चेन्नई	13
14	लेखा कार्यालय, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा मंत्रालय (सिविल) नई दिल्ली	14
15	रक्षा लेखा नियंत्रक (केन्टीन स्टोर डिपो) मुम्बई	15
16	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, नई दिल्ली	16
17	रक्षा लेखा नियंत्रक, चेन्नई	18
18	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अनुसंधान एवं विकास) नई दिल्ली	19
19	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन वितरण) मेरठ	20
20	रक्षा लेखा नियंत्रक, गुवाहाटी	21
21	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान) लखनऊ	22
22	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (सीमा सडक) दिल्ली छावनी	23
23	रक्षा लेखा नियंत्रक (अनुसंधान एवं विकास) बेंगलुरु	24
24	रक्षा लेखा नियंत्रक, सिकंदराबाद	25
25	रक्षा लेखा नियंत्रक, जबलपुर	26
26	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (वायु सेना) नई दिल्ली	27
27	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अनुसंधान एवं विकास) हैदराबाद	28
28	रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली	29
29	रक्षा लेखा नियंत्रक (IDS), नई दिल्ली	30
30	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिणी पश्चिमी कमान), जयपुर	31

**HARYANA GOVERNMENT****EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 25th October, 2018

**No. 96/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of section 1 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), read with section 51 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 86/GST-2, dated the 18th September, 2018, namely:—

**AMENDMENT**

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 86/GST-2, dated the 18th September, 2018,-

- (i) in item (c), for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and
- (ii) the following proviso shall be added, namely :-

“Provided that with respect to persons specified under clause (a) of Sub-section (1) of section 51 of the Act, nothing in this notification shall apply to the authorities under the Ministry of Defence, other than the authorities specified in the Annexure-A and their offices, with effect from the 1st day of October, 2018.”.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.

**ANNEXURE 'A'**  
**CODE NUMBERS ALLOTTED TO**  
**THE PRINCIPAL CONTROLLERS/CONTROLLERS OF DEFENCE ACCOUNTS**

Serial No.	Designation of Controller/Office	Code No.
1.	Controller of Defence Accounts, Patna	00
2.	Pr. Controller of Defence Accounts (Pensions), Allahabad	01
3.	Pr. Controller of Defence Accounts (Officers), Pune	02
4.	Controller of Defence Accounts, (Army), Meerut	03
5.	Pr. Controller of Defence Accounts, Southern Command, Pune	04
6.	Pr. Controller of Defence Accounts, Bangalore	05
7.	Pr. Controller of Defence Accounts, Western Command, Chandigarh	06
8.	Pr. Controller of Accounts (Factories), Kolkata	07
9.	Pr. Controller of Defence Accounts (Air Force), Dehradun	08
10.	Pr. Controller of Defence Accounts (Navy), Mumbai	09
11.	Controller of Defence Accounts (Funds), Meerut	10
12.	Pr. Controller of Defence Accounts, Northern Command, Jammu	12
13.	Zonal Office (Pension Disbursement), Chennai	13
14.	AO DAD Min. of Defence (Civil), New Delhi	14
15.	Controller of Defence Accounts, Canteen Stores Dept., Mumbai	15
16.	Pr. Controller of Defence Accounts, New Delhi	16
17.	Controller of Defence Accounts, Chennai	18
18.	Pr. Controller of Defence Accounts (R&D) New Delhi	19
19.	Controller of Defence Accounts (Pension Disbursement), Meerut	20
20.	Controller of Defence Accounts, Gauhati	21
21.	Pr. Controller of Defence Accounts, (CC) Lucknow	22
22.	Pr. Controller of Defence Accounts (Border Roads), New Delhi	23
23.	Controller of Defence Accounts (R&D), Bangalore	24
24.	Controller of Defence Accounts, Secunderabad	25
25.	Controller of Defence Accounts, Jabalpur	26
26.	Pr. Controller of Defence Accounts (Air Force), New Delhi	27
27.	Pr. Controller of Defence Accounts (R&D), Hyderabad	28
28.	Controller of Defence Accounts, New Delhi	29
29.	Controller of Defence Accounts (IDS), New Delhi	30
30.	Pr. Controller of Defence Accounts (SWC), Jaipur	31